



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 1975/भाघ 4, 1896

No. 16]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 1975/MAGHA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January 1975

G.S.R. 17(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 1975.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973.

2. In sub-rule (1) of rule 2 of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, (hereinafter referred to as the said rules)—

(1) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(aa) “average emoluments” means the average of the emoluments drawn by a member of the Service during the last three years of his service;

NOTE.—(i) If during the last three years of his service, a member of the Service has been absent on leave with allowances or having been suspended, has been re-instated without forfeiture of service, his emoluments for the purposes of ascertaining the average should be taken at what they would have been had he not been absent from duty or suspended.

- (ii) If during the last three years of his service a member of the Service has been absent from duty on leave without allowances (not counting for pension) or suspended under such circumstances that the period so passed does not count as qualifying service, the period of such leave or suspension shall be disregarded in the calculation of the average, an equal period before the three years being included.
 - (iii) In the case of a member of the Service who, while on leave preparatory to retirement is confirmed in the higher post which he held in an officiating or temporary capacity before proceeding on such leave, his substantive emoluments in the higher post, which he would have drawn had he been on duty, shall be taken into account for the purpose of calculation of his average emoluments.
 - (iv) Except as provided in clauses (i), (ii) and (iii) above, only emoluments actually received shall be included in the calculation. For example, where a member of the Service is allowed to count time retrospectively towards increase of pay but does not receive retrospectively the intermediate periodical increments, these intermediate increments shall not be reckoned in the calculation of average emoluments.
 - (v) Periods of joining time which fall within the last three years of service of a member of the Service shall form part of the three years for the purposes of average emoluments.
 - (vi) Where the emoluments of a member of the Service have been reduced during the last three years of his service, otherwise than as a penalty, average emoluments may, at the discretion of Government, be substituted for emoluments for the purpose of calculation of the gratuity or death-cum-retirement gratuity admissible under rule 18 or rule 19.
 - (vii) In the case of a member of the Service who while officiating in a higher post proceeds on leave and retires or dies while on leave, the benefit of officiating or temporary pay for purposes of this clause and clause (bb) shall be given only if it is certified that the member of the Service would have continued to hold the higher officiating or temporary appointment but for his proceeding on leave.
- (2) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—
- (bb) "emoluments" means the emoluments which a member of the Service was receiving immediately before his retirement or death, as the case may be, and shall include—
- (i) pay, special pay and personal pay;
 - (ii) any other emoluments which may, by general or special order of the President, be classed as pay:
- Provided that the emoluments in respect of any period prior to the 1st of January, 1973, shall also include the dearness allowance and the interim reliefs:
- Provided further that the monetary allowances attached to the King's Police Medal and the Indian Police Medal shall not be treated as forming part of the emoluments of the recipient for the purpose of this clause;
- (3) To rule 18 of the said rules, the following proviso shall be added, namely:—
- "Provided that the amount of invalid pension shall not be less than the amount of family pension admissible under sub-rule (2) of rule '22B.'"
- (4) In sub-rule (3) of rule 19 of the said rules,—
- (1) in clause (a)—
 - (A) for the opening portion, the following shall be substituted, namely:—
- "The death-cum-retirement gratuity equal to one-fourth of the emoluments for each completed period of six months of service shall be paid to a member of the Service who has completed five years' qualifying service, subject to a maximum of 16½ times of the emoluments";
- (B) after the existing provisos, the following proviso shall be inserted, namely:—
- "Provided also that the amount of death-cum-retirement gratuity payable under this clause shall in no case exceed thirty thousand rupees"
- (2) In the Note, for the abbreviation, figures and words "Rs. 1800 per mensem", the abbreviation, figures and words "Rs. 2500 per mensem" shall be substituted.

(5) In rule 22B of the said rules,—

(1) for sub-rule (2) (excluding the Explanation), the following shall be substituted, namely:—

“(2) *Scale of family pension*:—Subject to the other provisions of this rule, the scale of family pension admissible shall be as follows:—

(i) where the pay of the member of the Service is Rs. 1200 and above, 12 per cent of pay subject to a minimum of Rs. 160 a month and a maximum of Rs. 250 a month;

(ii) where the pay of the member of the Service is Rs. 1199 or below, 15 per cent. of pay subject to a minimum of Rs. 100 a month and a maximum of Rs. 160 a month”.

(2) in sub-rule (3), for the words, abbreviation and figures “subject to a maximum of Rs. 3600”, the words, abbreviation and figures “subject to a maximum of Rs. 5000” shall be substituted.

(6) In rule 22C of the said rules,—

(1) for the words “reached the normal age of superannuation,” the words and figures attained the age of 65 years” shall be substituted.

(2) after the proviso, the following further proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that in the event of death after retirement, the enhanced pension rates shall not exceed the pension sanctioned to the member of the Service at the time of the retirement inclusive of the part of the pension which the retired member of the Service may have commuted before death”.

(3) The Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after the Explanation as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:—

“*Explanation 2*.—Family pension in the case of the death of a member of the Service after retirement shall be payable only to those members of his family who were declared as such before his retirement:

Provided that no such declaration is necessary in respect of such of the members of the Service who retire during the period between the 1st of January 1973 and the date of publication of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 1975, in the Official Gazette”.

(7) Rule 23 of the said rules shall be omitted.

(8) For Schedule A to the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE

Gratuity of Pension

Completed six monthly periods of qualifying service	Scale of gratuity or pension	Maximum pension (in Rs. per annum)
1	2	3
(a) Gratuity		
1. $\frac{1}{2}$ month's emoluments		
2. 1 "		
3. $1\frac{1}{2}$ "		
4. 2 "		
5. $2\frac{1}{2}$ "		
6. 3 "		
7. $3\frac{1}{2}$ "		
8. 4 "		
9. $4\frac{1}{2}$ "		
10. $4\frac{3}{4}$ "		
11. $5\frac{1}{4}$ "		
12. $5\frac{1}{2}$ "		
13. $5\frac{3}{4}$ "		
14. $6\frac{1}{4}$ "		
15. $6\frac{1}{2}$ "		
16. 7 "		
17. $7\frac{1}{4}$ "		
18. $7\frac{3}{4}$ "		
19. $8\frac{1}{4}$ "		

1	2	3
(b) Pension		
20.	10/80ths of average emoluments	3750.00
21.	10½/80ths	3937.50
22.	11/80ths	4125.00
23.	11½/80ths	4312.50
24.	12/80ths	4500.00
25.	12½/80ths	4687.50
26.	13/80ths	4875.00
27.	13½/80ths	5062.50
28.	14/80ths	5250.00
29.	14½/80ths	5437.50
30.	15/80ths	5625.00
31.	15½/80ths	5812.50
32.	16/80ths	6000.00
33.	16½/80ths	6187.50
34.	17/80ths	6375.00
35.	17½/80ths	6562.50
36.	18/80ths	6750.00
37.	18½/80ths	6937.50
38.	19/80ths	7125.00
39.	19½/80ths	7312.50
40.	20/80ths	7500.00
41.	20½/80ths	7687.50
42.	21/80ths	7875.00
43.	21½/80ths	8062.50
44.	22/80ths	8250.00
45.	22½/80ths	8437.50
46.	23/80ths	8625.00
47.	23½/80ths	8812.50
48.	24/80ths	9000.00
49.	24½/80ths	9187.50
50.	25/80ths	9375.00
51.	25½/80ths	9562.50
52.	26/80ths	9750.00
53.	26½/80ths	9937.50
54.	27/80ths	10125.00
55.	27½/80ths	10312.50
56.	28/80ths	10500.00
57.	28½/80ths	10687.50
58.	29/80ths	10875.00
59.	29½/80ths	11062.50
60.	30/80ths	11250.00
61.	30½/80ths	11437.50
62.	31/80ths	11625.00
63.	31½/80ths	11812.50
64.	32/80ths	12000.00
65.	32½/80ths	12000.00
66.	33/80ths and above	12000.00"

(9) Schedule B to the said rules shall be omitted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Government have decided that the recommendations of the Third Central Pay Commission relating to retirement benefits, date of effect, etc. shall be accepted broadly, and made applicable with effect from the 1st January, 1973. The All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, are, therefore, being amended accordingly. No officer is likely to be adversely affected by these rules being given retrospective effect from that date.

[No. 33/12/73-AIS(II)]

V. RANGANATHAN, Dy. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1975

सा० का० नि० 17(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध राज्यों से परामर्श करने के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति प्रसुविधा) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति प्रसुविधा) संशोधन नियम, 1975 है ।

(2) ये 1973 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति प्रसुविधा) नियम, 1958 के नियम 2 के उपनियम (1) में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) :—

(1) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) “औसत उपलब्धियाँ” से सेवा के किसी सदस्य द्वारा अपनी सेवा के अन्तिम तीन वर्ष के दौरान ली गई उपलब्धियाँ अभिप्रेत हैं ;

पण.—(i) यदि सेवा का कोई सदस्य, अपनी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान भत्तों सहित छुट्टी पर अनुपस्थित रहा है या निलम्बित किए जाने के पश्चात् सेवा के समुपहरण बिना बहाल कर दिया गया है, तो औसत अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए उसकी उपलब्धियाँ वही माना जाएंगी, जो उस स्थिति में होती जब कि वह काम से अनुपस्थित न रहा होता या निलम्बित न किया गया होता ।

(ii) यदि सेवा का कोई सदस्य, अपनी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान भत्तों के बिना काम से छुट्टी पर अनुपस्थित रहा है (जिसकी गणना पेंशन के लिए नहीं की जाएगी) या ऐसी परिस्थितियों में निलम्बित रहा है कि इस प्रकार व्यतीत की गई अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना नहीं की जाती है, तो ऐसी छुट्टी या निलम्बन की अवधि पर औसत की संगणना करते समय ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि तीन वर्ष से पूर्व की उतनी ही अवधि को सम्मिलित किया जाएगा ।

(iii) सेवा के ऐसे सदस्य की दशा में, जिसकी सेवानिवृत्ति के लिए ली जाने वाली छुट्टी पर रहते समय, उच्चतर पद पर पुष्टि कर दी जाती है, जिसको वह ऐसी छुट्टी पर जाने से पूर्व स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में धारण कर रहा था, उच्चतर पद पर उसकी अधिष्ठाई उपलब्धियाँ, जिन्हें वह उस स्थिति में लेता जब कि वह वर्तमान में होता, उसकी औसत उपलब्धियों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए लेखा में ली जाएंगी ।

(iv) ऊपर के खण्ड (i), (ii) और (iii) में यथा उपलब्ध के सिवाय केवल वास्तविक रूप से प्राप्त उपलब्धियाँ ही संगणना में सम्मिलित की जाएंगी । उदाहरणार्थ, जहाँ सेवा के किसी सदस्यको वेतन में वृद्धि के लिए भूतलक्षी प्रभाव से समय की गणना

करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है किन्तु वह अन्तर्वर्ती कालिक वेतन-वृद्धियों को भूतलक्षी प्रभाव से प्राप्त नहीं करता है, वहां ये अन्तर्वर्ती वेतन-वृद्धियां औसत उपलब्धियों की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएंगी।

- (v) कार्यारम्भ-काल की अवधियां, जो सेवा के किसी सदस्य की सेवा के अन्तिम तीन वर्ष के भीतर आती हैं, औसत उपलब्धियों के प्रयोजन के लिए तीन वर्ष की भागरूप मानी जाएंगी।
- (vi) जहां सेवा के किसी सदस्य की उपलब्धियों में, उसकी सेवा के अन्तिम तीन वर्ष के दौरान, शास्ति से भिन्न रूप में कटौतियां की गई हैं, वहां सरकार के विवेकानुसार औसत उपलब्धियों नियम 18 या नियम 19 के अधीन अनुज्ञेय उपदान या मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति उपदान की संगणना के प्रयोजन के लिए उपलब्धियां मानी जाएंगी।
- (vii) सेवा के उस सदस्य की दशा में जो उच्चतर पद पर कार्य करते समय छुट्टी पर जाता है और छुट्टी पर रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाता है या मर जाता है, इस खण्ड और खण्ड (ख ख) के प्रयोजनों के लिए स्थानापन्न या अस्थायी वेतन का फायदा केवल तभी दिया जाएगा जब यह प्रमाणित किया जाए कि सेवा का सदस्य, यदि वह छुट्टी पर न जाता, उच्चतर स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति पर बना रहता।

(2) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ख ख) “उपलब्धियां” से वे उपलब्धियां अभिप्रेत हैं जिन्हें सेवा का कोई सदस्य, यथास्थिति, अपनी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था और उन्हीं निम्नलिखित सम्मिलित होंगे —

(i) वेतन, विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन ;

(ii) कोई अन्य उपलब्धियां जो राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश द्वारा वेतन के रूप में वर्गीकृत की जाएं ;

परन्तु 1 जनवरी, 1973 के पूर्व की किसी अवधि की वास्तव उपलब्धियों में मंहगाई भत्ता और अंतरिम सहायत भी सम्मिलित होंगी :

परन्तु यह और कि किंगज पुलिस मेडल और भारतीय पुलिस मेडल और भारतीय पुलिस मेडल से सम्बद्ध वित्तीय भत्तों को इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, प्राप्तकर्ता की उपलब्धियों का भाग नहीं माना जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु अशक्तता पेंशन की राशि, नियम 22 ख के उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन की राशि से कम नहीं होगी”।

4. उक्त नियमों के नियम 19 के उपनियम (3) में,—

(1) खण्ड (क) में—

(क) प्रारम्भिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“सेवा के छह मास की प्रत्येक पूरी अवधि की उपलब्धियों के एक चौथाई के बराबर मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान सेवा के उस सदस्य को दिया जाएगा

जिसने उपलब्धियों के 16 1/2 गुने की अधिकतम सीमा में रहते हुए पांच वर्ष की ग्रहक सेवा पूरी कर ली हो ” ;

(ख) विद्यमान परन्तुकों के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि इस खण्ड के अधीन देय मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान की राशि किसी भी दशा में तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।”

(2) टिप्पण में, “1800 रु० प्रतिमास” अंकों, संक्षेपाक्षर और शब्दों के स्थान पर, “2500 रु० प्रतिमास” अंक, संक्षेपाक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 22 ख में,—

(1) उपनियम (2) (स्पष्टीकरण को छोड़कर) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

“(2) कुटुम्ब पेंशन का मापमान:—इस नियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन का मापमान निम्न प्रकार होगा :—

(i) जहां सेवा के सदस्य का वेतन 1200 रु० और उससे ऊपर है, वहां न्यूनतम 160 रु० और अधिकतम 250 रु० प्रतिमास के अधीन रहते हुए, वेतन का 12 प्रतिशत ।

(ii) जहां सेवा के सदस्य का वेतन 1199 रु० या उससे कम है, वहां न्यूनतम 100 रु० और अधिकतम 160 रु० प्रतिमास के अधीन रहते हुए, वेतन का 15 प्रतिशत” ।

(2) उपनियम (5) में, “अधिकतम 3600 रु० के अधीन रहते हुए” अंकों, संक्षेपाक्षर और शब्दों के स्थान पर “अधिकतम 5000 रु० के अधीन रहते हुए,” अंक संक्षेपाक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 22 ग में, —

(1) “अधिवार्षिकी की प्रसामान्य आयु तक पहुंच जाता” शब्दों के स्थान पर “65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(2) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि सेवा निवृत्ति के पश्चात् मृत्यु की दशा में बढ़ाई गई पेंशन दर सेवानिवृत्ति के समय सेवा के सदस्य को मंजूर की गई पेंशन से, जिसमें पेंशन का वह भाग भी सम्मिलित है, जो सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य ने मृत्यु-पूर्व संराशित किया हो, से अधिक नहीं होगी ।”

(3) स्पष्टीकरण को इसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 2.—सेवा के किसी सदस्य की—सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु की दशा में, कुटुम्ब पेंशन, उसके कुटुम्ब के केवल उन्हीं सदस्यों को संदेय होगी जो उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व उस रूप में घोषित किए जा चुके हों :

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्यों की बाबत ऐसी कोई घोषणा आवश्यक नहीं है जो 1 जनवरी, 1973 और अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति प्रसुविधा), प्रथम संशोधन

नियम, 1975 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के बीच की अवधि के दौरान सेवा से निवृत्त हों।”

7. उक्त नियमों के नियम 23 का लोप कर दिया जाएगा।

8. उक्त नियमों की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

“अनुसूची

उपदान या पेंशन

अर्हता सेवा की पूर्ण छमाही अवधियाँ	उपदान या पेंशन का मापमान	अधिकतम पेंशन (रुपये प्रतिवर्ष)
1	2	3
1. (क) उपदान		
1 1/2 मास की उपलब्धियाँ		
2 1 " " "		
3 1 1/2 " " "		
4 2 " " "		
5 2 1/2 " " "		
6 3 " " "		
7 3 1/2 " " "		
8 4 " " "		
9 4 3/8 " " "		
10 4 3/8 " " "		
11 5 1/2 " " "		
12 5 1/2 " " "		
13 5 7/8 " " "		
14 6 1/4 " " "		
15 6 5/8 " " "		
16 7 " " "		
17 7 3/4 " " "		
18 7 3/4 " " "		
19 8 1/8 " " "		

1	2	3
(ख) पेंशन:		
20	असुरत उपलब्धियों का 10/80 वां अंश	3750.00
21	" " " 10 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	3937.50
22	" " " 11/80 वां "	4125.00
23	" " " 11 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	4312.50
24	" " " 12/80 वां "	4500.00
25	" " " 12 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	4687.50
26	" " " 13/80 वां "	4875.00
27	" " " 13 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	5062.50
28	" " " 14/80 वां "	5250.00
29	" " " 14 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	5437.50
30	" " " 15/80 वां "	5625.00
31	" " " 15 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	5812.50
32	" " " 16/80 वां "	6000.00
33	" " " 16 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	6187.50
34	" " " 17/80 वां "	6375.00
35	" " " 17 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	6562.50
36	" " " 18/80 वां "	6750.00
37	" " " 18 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	6937.50
38	" " " 19/80 वां "	7125.00
39	" " " 19 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	7312.50
40	" " " 20/80 वां "	7500.00
41	" " " 20 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	7687.50
42	" " " 21/80 वां "	7875.00
43	" " " 21 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	8062.50
44	" " " 22/80 वां "	8250.00
45	" " " 22 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	8437.50
46	" " " 23/80 वां "	8625.00
47	" " " 23 $\frac{1}{2}$ /80 वां "	8812.50
48	" " " 24/80 वां "	9000.00

1	2	3
49	असत उपलब्धियों का 24 $\frac{1}{2}$ /80 वां अंश	9187.50
50	„ „ „ 25/80 वां „	9375.00
51	„ „ „ 25 $\frac{1}{2}$ /80 „	9562.50
52	„ „ „ 26/80 वण „	9750.00
53	„ „ „ 26 $\frac{1}{2}$ /80 वां „	9937.50
54	„ „ „ 27/80 वां „	10125.00
55	„ „ „ 27 $\frac{1}{2}$ /80 वां „	10312.50
56	„ „ „ 28/80 वां „	10500.00
57	„ „ „ 28 $\frac{1}{2}$ /80 वां „	10687.50
58	„ „ „ 29/80 वां „	10875.00
59	„ „ „ 29 $\frac{1}{2}$ /80 वां „	11062.50
60	„ „ „ 30/80 वां „	11250.00
61	„ „ „ 30 $\frac{1}{2}$ /80 वां „	11437.50
62	„ „ „ 31/80 वां „	11625.00
63	„ „ „ 31 $\frac{1}{2}$ /80 वां „	11812.50
64	„ „ „ 32/80 वां „	12000.00
65	„ „ „ 32 $\frac{1}{2}$ /80 वां „	12000.00
66	„ „ „ 33/80 वां और इससे अधिक अंश	12000.00'

9. उक्त नियमों की अनुसूची ख का लोप किया जाएगा।

व्याख्यात्मक भाषण

सरकार ने यह निर्णय किया है कि सेवानिवृत्ति लाभों, उनके लागू होने की तारीख, आदि से सम्बन्धित तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों मॉटे तौर पर स्वीकार कर ली जाएंगी और उन्हें पहली जनवरी, 1973 से लागू किया जाएगा। इसलिये अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) नियम 1958 को तदनुसार संशोधित किया जा रहा है। इन नियमों को उस तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी भी अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

[च० 33/12/73-प्र० भा० से० (II)]

बी० रंगनाथन, उप सचिव।